

अपस्फीतिक्षेत्र में थोक मूल्य

स्रोत: द हट्टि

अक्टूबर 2023 में भारत के थोक मूल्य सूचकांक (WPI) ने वार्षिक मुद्रास्फीति दर -0.52% दर्ज की, जो सितंबर 2023 में -0.26% से कम है।

- अक्टूबर 2022 से रसायन, वदियुत, कपड़ा, बुनयिदी धातु, खाद्य सामान और कागज़ जैसे उद्योगों में कीमतों में कमी नकारात्मक मुद्रास्फीतिकारण है।
- यह अपस्फीतिप्रवृत्तअक्टूबर 2022 के हाई बेस इफेक्ट से प्रभावति है जब थोक मूल्य मुद्रास्फीति 8.4% थी।

नोट:

खाद्य कीमतों के संदर्भ में थोक खाद्य सूचकांक में वर्ष 2022 की तुलना में 1.07% की वृद्धि हुई। खाद्य टोकरी में परस्पर वरीधी रुझान देखे गए, वशिष रूप से सब्जियों की कीमतों में 21% की पर्याप्त कमी और धान एवं अनाज में मुद्रास्फीति में तेज़ी देखी गई।

थोक मूल्य सूचकांक क्या है?

- WPI थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमत का प्रतिनिधित्व करता है यानी वह वस्तुएँ जो थोक में बेची जाती हैं और उपभोक्ताओं के बजाय संगठनों के बीच इनका व्यापार कया जाता है।
 - जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) उपभोक्ता स्तर पर कीमतों के स्तर में बदलाव को दर्शाता है।
 - CPI के विपरीत WPI सेवाओं की कीमतों में हुए परिवर्तन को नहीं दर्शाता है।
- भारत में WPI को वाणज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशति कया जाता है।
 - भारत में इसका उपयोग एक महत्त्वपूर्ण मुद्रास्फीति संकेतक के रूप में कया जाता है।
- WPI का आधार वर्ष 2011-2012 है।
- WPI में वस्तुओं की हसिस्सेदारी:

All Commodities/Major Groups	Weight (%)
All Commodities	100.0
I. Primary Articles	22.62
II. Fuel & Power	13.15
III. Manufactured Products	64.23
// Food Index	24.38

प्रमुख शब्दावली:

- **मुद्रास्फीतदर:**
 - WPI के संदर्भ में मुद्रास्फीतदर एक वर्ष की शुरुआत तथा अंत में गणना की गई WPI के बीच का अंतर है।
 - एक वर्ष में WPI में हुई प्रतिशत वृद्धि उस वर्ष के लिये मुद्रास्फीतकी दर बताती है।
- **अवस्फीत:**
 - अवस्फीतिका अभिप्राय वस्तुओं तथा सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में हुई कमी से है। जब मुद्रास्फीतदर का 0% से कम होना अवस्फीतको संदर्भित करता है, जसि नकारात्मक मुद्रास्फीतके रूप में जाना जाता है।
- **आधार प्रभाव:**
 - आधार प्रभाव का आशय पछिले वर्ष की मुद्रास्फीतिका चालू वर्ष के मूल्य स्तरों पर प्रभाव से है।
 - उदाहरण के लिये यदि पछिले वर्ष में मुद्रास्फीतदर कम थी तो वर्तमान समय में मामूली मूल्य वृद्धि भी असंगत रूप से उच्च मुद्रास्फीतदर उत्पन्न कर सकती है।

सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. नमिनलखित कथनों पर वचिर कीजयि: (2020)

1. खाद्य वस्तुओं का 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक' (CPI) भार (Wegitage) उनके 'थोक मूल्य सूचकांक' (WPI) में दयि गए भार से अधकि है।
2. WPI, सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता, जैसा कऱCPI करता है।
3. भारतीय रज़िर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीतके मुख्य मान तथा प्रमुख नीतगित दरों के नरिधारण हेतु WPI को अपना लयिा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

